



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 31] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1983/साध 11, 1904  
No. 31] NEW DELHI, MONDAY JANUARY 31, 1983/MAGHA 11, 1904

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 8/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1983

सा. का. नि. 41 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और  
नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व  
विभाग) की अधिसूचना सं. 280/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर,  
1982 को अधिक्रान्त करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की मद सं. 1  
की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्य के अनुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी  
का टैरिफ मूल्य तीन सौ तीस रुपये प्रति क्विंटल नियत करती है।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के अधीन विक्रय किए जाने की अपेक्षा करती है।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1983 से प्रवृत्त होगी।

[सं. 8/83 के.उ.शु./फा.सं.7/1/83 के.उ.शु.-1]

डी. मेहता, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

**NO. 8/83-CENTRAL EXCISES**

New Delhi, the 31st January, 1983

**G.S.R. 41(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 290/82-Central Excises, dated the 31st December, 1982, the Central Government hereby fixes a tariff value of three hundred and thirty rupees per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st day of February, 1983.

[No. 8/83CE/F. No. 7/1/83 CX.I]

D. MEHTA, Under Secy.